

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २५]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी २२, १९६८/माघ २, १९८९

No. 25]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 22, 1968/MAGHA 2, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 22nd January 1968

S.O. 365.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following further amendment to the Exports (Control) Order, 1962 namely:—

In part 'B' of Schedule I to the said Order, after item No. 43(30), the following shall be added:—

“(31)—No. 6 Stained Loose Splittings.

[No. E(C)O, 1962/AM(169)].

P. D. KASBEKAR,

Chief Controller of Imports and Exports.

